

fun'kd] l'fud dY;k.k foHkkx]]gehjij ftyk gehjij fgeky in'k d iLrdky; fuf/k y[kkvk
dk vdf{k.k ifronuA
vof/k 4@2006 I 3@2008

Hkkx & ,d

1- xr vdf{k.k %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी । अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु उचित कार्यवाही की जाए ।

%d% vdf{k.k ifronu vof/k 12@84 I 3@86

पैरा 8

अनिर्णीत

%[k% vdf{k.k ifronu vof/k 4@91 I 3@92

पैरा 5(1)

अनिर्णीत

%x% vdf{k.k ifronu vof/k 4@92 I 3@93

पैरा 5

अनिर्णीत

%?k% vdf{k.k ifronu vof/k 4@93 I 3@95

पैरा 5

अनिर्णीत

पैरा 6

अनिर्णीत

%M-% vdf{k.k ifronu vof/k 4@95 I 3@97

पैरा 5(2)

अनिर्णीत

$\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ $vd\{k.k\ ifronu\ vof/k\ 4@97\ |\ 3@99$

पैरा 5

अनिर्णीत

$\frac{1}{4}N\frac{1}{2}$ $vd\{k.k\ ifronu\ vof/k\ 4@2001\ |\ 3@2002$

पैरा 5

अनिर्णीत

$\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ $vd\{k.k\ ifronu\ vof/k\ 4@2002\ |\ 3@2003$

पैरा 5

अनिर्णीत

$\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ $vd\{k.k\ ifronu\ vof/k\ 4@2003\ |\ 3@2004$

पैरा 5

अनिर्णीत

$\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ $vd\{k.k\ ifronu\ vof/k\ 4@2004\ |\ 3@2006$

पैरा 4

निर्णीत

पैरा 5

निर्णीत । पैरे की वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/06 से 3/08 के पैरा 5 में दी गई है।

पैरा 6

अनिर्णीत ।

Hkkx & nk

2- oreku vdk.k %&

पुस्तकालय निधि का अवधि 4/2006 से 3/2008 तक का वर्तमान अंकेक्षण दिनांक 23.6.2008 से 24.6.2008 तक श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा हमीरपुर में किया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं। विस्तृत पडताल हेतु मास 4/2006, 12/2006, 10/07 व 3/2006 का चयन किया गया ।

श्रीम नकपज त्मचवतजीं इममद चतमचंतमक वद जीम ईंपे वपिदवितउंजपवद नितदपौमक दक उंकम अंपसंइसम इल जीम ब्दजतवससवपदह वपिबमत वि जीम प्देजपजनजपवदण जीम वपिबमत वि स्वबंस नकपज कमचंतजउमदज कपेबसंपउे दल तमेचवदेपइपसपजल वित दल उपे.पदवितउंजपवद वत दवदपदवितउंजपवद वद जीम चंतज वि नकपजममण

3- forh; fLFkfr %&

%d% अवधि 4/2004 से 3/2006 तक लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

1.	गत शेष	53839.54
2	आय	<u>53711.80</u>
3	कुल	107551.34
4	व्यय	<u>12033.00</u>
5	अन्तिम शेष	95518.34

%[k% fnukd 31-3-2006 dk vfure 'k" dk fooj.k %&

बचत बैंक खाते में जमा राशि : 95514.24
: 4.00

हस्तगत राशि

4 विक्रय के लिए लेखों का अंकेक्षण शुल्क का आंकलन

अवधि 4/2004 से 3/2006 तक के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन मु0 1200/- रू0 किया गया। उपरोक्त राशि को अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 176 दिनांक 4.9.2006 के द्वारा , निदेशक , राज्य सैनिक कल्याण विभाग , हमीरपुर से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 'परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश , शिमला - 9 के नाम प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है ।

अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 275723 दिनांक 8.9.2006 के द्वारा प्रेषित कर दिया है ।

5- लेखों की खरीद के लिए अंकेक्षण शुल्क का आंकलन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस निधि से खरीदे गये समाचार पत्रों व पत्रिकाओं की रद्दीकी नीलामी नहीं की गई है। अतः समय -2 पर इस निधि से खरीदे गये समाचार पत्रों व पत्रिकाओं की रद्दी की नीलामी करके आय को इस निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाये ।

6- मास 9/2004 में इस निधि से निम्नलिखित किताबों के क्रय हेतु मु0 1050 रू0 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में पुस्तकालय के लिए अनुमोदित पुस्तकों की सूची अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस के अभाव में भुगतान की गई राशि को निधि पर उचित प्रभार नहीं माना जाता । अतः खरीदी गई पुस्तकों को पुस्तकालय हेतु अनुमोदित पुस्तकों की सूची में दर्शाया । दिखाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि को उचित स्रोत से निकाल कर इस निधि में जमा करवाया जाए । अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	कीमत
1	चिल्ड्रन इल्युजरेटिडडिक्शनरी	500.00
2	चिल्ड्रन एन्साईक्लोपिडिया	550.00
		1050.00

7 y?k vkifr foojf.kdk %&

इसे अलग से जारी नहीं किया गया है ।

8 fu"d"k %&

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखाओं का रख-रखाव सन्तोषजनक पाया गया ।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हि0प्र0 षिमला -171009

पृष्ठांकन संख्या : 14(23)/75 फिन (एल0ए0)खण्ड-12 दिनांक : षिमला-9 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक , राज्य सैनिक कल्याण , हमीरपुर को इस आषय के साथ प्रेषित की है कि वह इस अंकेंक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।
2. संयुक्त सचिव , सामान्य प्रषासन विभाग , हि0प्र0 , षिमला -2

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हि0प्र0 षिमला -171009